



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1938 (श०)

(सं० पटना 910) पटना, बुधवार, 19 अक्टूबर 2016

वित्त विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर 2016

सं० 01/स्था०(ले०से०)-20/2015-8219/वि०—बिहार लेखा सेवा के निम्नांकित दो (2) लेखा पदाधिकारी कोटि के पदाधिकारियों को पे बैंड रु० 9300-34,800+ग्रेड पे-4800 से वरीय लेखा पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पे बैंड रु 15,600-39,100 + ग्रेड पे-6600 में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	कोटि क्रमांक
1	श्री कुमार विजय प्रताप	72
2	श्री राजेश राम	92

2. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

3. प्रोन्नति प्राप्त उक्त पदाधिकारियों को वरीय लेखा पदाधिकारी/समकक्ष पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

4. वित्त विभागीय पत्रांक-3ए-2-06/2013-3637, दिनांक 10.04.2013 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.10.2010 एवं संकल्प संख्या 7566, दिनांक 14.07.2010 के द्वारा उक्त पदाधिकारियों को विकल्प देना होगा कि उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रोन्नति की तिथि से करायेंगे या वेतन वृद्धि की तिथि से। यह विकल्प आदेश/अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर लिखित रूप से कार्यालय प्रधान/महालेखाकर/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना है। विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण प्रोन्नति की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अंतिम होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश,
जयन्त कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 910-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>